



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 122]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 26, 2001/फाल्गुन 7, 1922

No. 122]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 26, 2001/PHALGUNA 7, 1922

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2001

का.आ. 167(अ).— केन्द्रीय सरकार में पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 2 के खण्ड (क) के अनुसरण में भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 1519 तारीख 1 जून, 1996 द्वारा श्री कालीपाडा श्याम, डिप्टी क्लेक्टर, त्रिपुरा सरकार को मैसर्स गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) द्वारा त्रिपुरा राज्य में पाइपलाइन बिछाएं जाने के लिए उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया था;

और उक्त श्री कालीपाडा श्याम की सेवाएं त्रिपुरा राज्य सरकार को संप्रत्यावर्तित कर दी गई हैं;

और उक्त श्री कालीपाडा श्याम की मैसर्स गैस अथॉरिटी ऑफ लिमिटेड के साथ प्रतिनियुक्ति 30 मई, 1998 से समाप्त हो गई है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (क) के अनुसरण में, और का० आ० 1519, तारीख 1 जून, 1996 के अधिक्रमण में नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (1) में वर्णित व्यक्ति को, मैसर्स गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में वर्णित क्षेत्र में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाएं जाने के लिए उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

व्यक्ति का नाम और पता	अधिकारिता का क्षेत्र
1	2
श्री माणिक चंद्र राय, डिप्टी क्लक्कर, त्रिपुरा सरकार, (मैसर्स गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में प्रत्युनियुक्ति पर) सर्किट हाउस के सामने पो० आफिस-अभय नगर, अगरतला-799005	त्रिपुरा राज्य

[सं. एल-14014/3/2001-जी.पी.]

एस. के. सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2001

S. O. 167(E).— In pursuance of clause (a) of section 2 of the Petroleum and Minerals, Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government vide Notification of Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No.S.O. 1519 dated 1st June, 1996, appointed Shri Kalipada Shyam, Dy. Collector, Government of Tripura to perform the functions of the competent authority under the said Act for laying of Pipeline by M/s Gas Authority of India Limited (GAIL) in Tripura State;

And, whereas, the services of the said Shri Kalipada Shyam have been repatriated to State Government of Tripura:

And, whereas, the deputation of the said Shri Kalipada Shyam with M/s Gas Authority of India Limited has come to an end with effect from May 30, 1998;

Now, therefore, in pursuance of clause (a) of section 2 of the said Act and in supersession of S.O.1519 dated 1st June, 1996, the Central Government hereby authorises the person mentioned in column (1) of the Schedule given below to perform the functions of the competent authority under the said Act for laying Pipelines by the said M/s Gas Authority of India Limited in the area mentioned in column (2) of the said Schedule.

SCHEDULE

Name of the Person and address (1)	Area of Jurisdiction (2)
Manik Chandra Roy, Deputy Collector, Government of Tripura (On Deputation to M/s Gas Authority of India Limited) Near Circuit House, P.O. Abhaya Nagar, Agartala – 799005	State of Tripura

[No. L-14014/3/2001-G.P.]

S. K. SINGH, Under Secy.

